



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० ४४] नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर ३०-नवम्बर ५, २००४ (कार्तिक ८, १९२६)  
No 44] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 30-NOV. 5, 2004 (KARTIKA 8, 1926)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## विषय-सूची

भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	पृष्ठ 883	भाग II—खण्ड 3 उपखण्ड—(iii)—भारत सरकार पृष्ठ के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	1129	भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किये गये सांविधिक नियम और आदेश	
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	3	भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	1169
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1511	भाग III—खण्ड 2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और विज्ञापनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	8059
भाग II—खण्ड 1—अभिनियम, अध्यादेश और विनियम	*	भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	—
भाग II—खण्ड 1 क—अभिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*	भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	6287
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्टें	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	587
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*	भाग V—अप्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्बुद्ध	—
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*		

\*आंकड़े प्रामाण्य नहीं हुए।

## CONTENTS

Page	Page
<b>PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court</b> .. 883	<b>PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules &amp; Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than Administration of Union Territories)</b> ..
<b>PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court</b> .. 1129	<b>PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence</b> ..
<b>PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence</b> .. 3	<b>PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India</b> .. 1169
<b>PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence</b> .. 1511	<b>PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs</b> .. 8059
<b>PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations</b> ..	<b>PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the Authority of Chief Commissioners</b> .. —
<b>PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language of Acts, Ordinance and Regulations</b> ..	<b>PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies</b> .. 6287
<b>PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills</b> ..	<b>PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies</b> .. 587
<b>PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)</b> ..	<b>PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi</b> ..
<b>PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)</b> ..	

## भाग I—खण्ड 1

## [PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएँ, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएँ  
 [Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन

नई दिल्ली-110001, दिनांक 22 सितम्बर 2004

सं० एम-13011/2/2001-पीसीएल—भारत सरकार  
 एतद्वारा दिनांक 22 सितम्बर 2004 से मूल्य एवं निर्वाह  
 व्यवस्था सांख्यिकी विभाग तकनीकी सलाहकार समिति का  
 पुनर्गठन निम्नलिखित अर्थसूचियों से करती है—

अध्यक्ष

1. महानिदेशक,  
केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन,  
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय,  
सरदार पटेल भवन, संसद मार्ग,  
नई दिल्ली-110001

सदस्य

2. सलाहकार  
श्रम, रोजगार तथा जनशक्ति,  
योजना आयोग, योजना भवन  
नई दिल्ली-110001

3. अर्थ तथा सांख्यिकीय सलाहकार,  
कृषि मंत्रालय,  
कृषि भवन,  
नई दिल्ली-110001

4. आर्थिक सलाहकार,  
वित्त मंत्रालय,  
आर्थिक कार्य विभाग,  
नार्थ ब्लॉक,  
नई दिल्ली-110001

5. आर्थिक सलाहकार,  
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय,  
उद्योग भवन,  
नई दिल्ली-110001

6. आर्थिक सलाहकार,  
उपभोक्ता मामले, विभाग,  
खाद्य एवं उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण  
मंत्रालय,  
शास्त्री भवन,  
नई दिल्ली-110001

7. महानिदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी,  
राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन,  
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय,  
सरदार पटेल भवन, संसद मार्ग,  
नई दिल्ली-110001

8. अपर महानिदेशक,  
क्षेत्र संकाय प्रभाग, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन,  
पूर्वी खण्ड-6, आर० के० पुरम,  
नई दिल्ली-110066

9. महानिदेशक,  
श्रम, रोजगार, श्रम मंत्रालय,  
कलेरमोन्ट बिल्डिंग,  
शिमला-171004

10. उपमहानिदेशक,  
प्रभारी पीसीएल एकक,  
केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन,  
पूर्वी खण्ड-10, आर० के० पुरम,  
नई दिल्ली-110066

11. अध्यक्ष,  
कृषि लागत एवं मूल्य आयोग,  
कृषि एवं सहकारिता विभाग,  
कृषि मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001

12. कार्यकारी निदेशक,  
भारतीय रिज़र्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय,  
केन्द्रीय कार्यालय भवन,  
ग्रहीत भगत सिंह रोड,  
मुम्बई-400001

13. आर्थिक एवं सांख्यिकीय सलाहकार,  
अर्थ एवं सांख्यिकीय संगठन, हरियाणा सरकार,  
30 बेस बिल्डिंग, सेक्टर-17,  
चंडीगढ़-160017

14. निदेशक,  
अर्थ तथा सांख्यिकी निदेशालय,  
केरल सरकार, विकास भवन,  
तिरुवनंतपुरम-695033

15. निदेशक,  
अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, त्रिपुरा सरकार,  
शंकर छमहानी, अगरतला-799001

16. प्रो० सी० पी० चन्द्रशेखर,  
जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय,  
नई दिल्ली-110067

17. प्रो० के० सुन्दरम  
दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स,  
दिल्ली-110017

सदस्य-सचिव

18. संयुक्त निदेशक,  
पीसीएल एकक,  
केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन,  
पश्चिमी खण्ड-8  
विंग-6  
आर० के० पुरम,  
नई दिल्ली 110066

2. राज्य सरकारों तथा अकादमिक क्षेत्र के प्रतिनिधि  
22 सितम्बर, 2004 से दो वर्षों की अवधि के लिए समिति  
में कार्य करेंगे।

3. पुनर्गठित समिति के कार्य निम्नलिखित होंगे :—

- (i) केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों तथा संघशासी प्रशासनों द्वारा पारिवारिक बजट पृष्ठतल्ल के संचालन हेतु प्रस्तावों की जांच;
- (ii) अखिल भारतीय तथा राज्य स्तरीय सूचकांकों संबंधी समस्याओं को शामिल कर, उपभोक्ता मूल्य तथा तुलनात्मक ऊंची लागत सूचकांकों के निर्माण हेतु केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों तथा संघशासी प्रशासनों द्वारा तैयार की गई स्कीमों की जांच;
- (iii) अवधारणाओं, परिभाषाओं, मूल्य संग्रहण की पद्धतियों तथा उपभोक्ता मूल्य एवं तुलनात्मक ऊंची लागत सूचकांकों के समेकन का मानकीकरण तथा सुधार करना;
- (iv) अखिल भारतीय तथा राज्य स्तरीय सूचकांकों संबंधी समस्याओं सहित, थोक, फुटकर, उत्पादकों तथा धन्य मूल्य सूचकांकों और उनसे संबंधित

विशिष्ट समस्याओं हेतु केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों तथा संघशासी प्रशासनों द्वारा तैयार की गई स्कीमों की जांच करना;

(v) प्रत्येक प्रकार के सूचकांकों के लिए समुचित भारण की पद्धतियों सहित थोक, फुटकर उत्पादकों के तथा अन्य मूल्य सूचकांकों के समेकन और मूल्य संग्रहण की पद्धतियों, परिभाषाओं, अवधारणाओं का मानकीकरण तथा सुधार करना;

(vi) मूल्य सांख्यिकी के संग्रहण, समेकन तथा प्रसार की एक एकीकृत प्रणाली विकसित करने तथा इसे तर्कसंगत बनाने की दृष्टि से मूल्य संग्रहण हेतु संगठनात्मक व्यवस्थाओं तथा मशीनरी की समीक्षा करना।

4. केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा समिति को लिपिकीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

5. समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए सरकारी सदस्यों पर यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता संबंधी व्यय उनके मूल मंत्रालयों/विभागों/संगठनों, जिससे वे संबंध रखते हों, द्वारा वहन किया जाएगा।

6. क्रम सं० 16 और 17 पर उल्लिखित गैर-सरकारी सदस्यों को व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के समय-समय पर यथासंशोधित और स्पष्टीकृत दिनांक 23-6-1986 के कार्यालय ज्ञापन सं० 19020/1/84-स्था० IV के पैरा 1 (ii) में निहित अनुदेशों के अनुसार बैठक में भाग लेने के लिए गैर-सरकारी सदस्यों को यथा अनुमत्य यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता/वाहन भत्ता दिया जाएगा।

7. उपरोक्त पैरा 1 की क्रम सं० 16 तथा 17 पर गैर-सरकारी सदस्यों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता के भुगतान के कारण होने वाला व्यय योजना स्कीम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अंकमाला का विकास, राष्ट्रीय स्तर पर शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या हेतु अलग-अलग के अंतर्गत बजट प्रावधान से वहन किया जाएगा।

8. इसे बजट तथा वित्त अनुभाग की डायरी सं० 501 दिनांक 14-9-2004 के तहत आर्थिक सलाहकार (सांख्यिकी) की सहमति से जारी किया जाता है।

एस० सी० दास  
वरिष्ठ विश्लेषक

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 18 अक्टूबर 2004

सं० यू-13019/2/2004-ए० एन० एल०—राष्ट्रपति,  
इस मंत्रालय की दिनांक 21-11-96 की अधिसूचना सं०  
यू० 13019/1/96-ए० एन० एल० के पैरा 2 (ग) में दी

गयी शर्तों के अनुसार निम्नलिखित व्यक्तियों को संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप के लिए गठित गृह मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त करते हैं :—

- (i) श्री हजहुसेन, चामयाम
- (ii) सुश्री मुथुबी, पथियाचेट्टा
- (iii) श्रीमती शाहिदा बेगम, ओडीपुरचेट्टा
- (iv) श्री कुनहिकोया, पल्लीपुरा
- (v) श्री सईद अब्दुल्लाकोया

डॉ० के० एस० सुगाथन संयुक्त सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 30 सितम्बर 2004

सं० एफ० 9-27/2004-यू०-3—दिनांक 2-8-2002  
और 13-3-2003 की अधिसूचना संख्या एफ 9-9/98-  
यू० 3 के क्रम में तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अधिनियम, 1956 की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर एतद्वारा घोषणा करती है कि एस० आर० एम० चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र, कट्टनकुलाथुर, कांचीपुरम को एम० आर० एम० विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई, जो सम-विश्वविद्यालय है, के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ निम्न शर्तों के अधीन तत्काल प्रभाव से शामिल किया जाता है :—

(क) एम० आर० एम० चिकित्सा महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र भारतीय चिकित्सा परिषद के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी भी छात्र को दाखिल नहीं करेगा।

(ख) अंतरिम अवधि में एम० आर० एम० विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा जारी किसी भी विज्ञापन/सार्वजनिक सूचना में विनिष्ट रूप से यह उल्लेख होगा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा एस० आर० एम० विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान में चिकित्सा महाविद्यालय का शामिल होना अस्थाई है और भारतीय चिकित्सा परिषद के अनुमोदन की शर्त के अधीन है।

सुनील कुमार, संयुक्त सचिव

# MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION CENTRAL STATISTI- CAL ORGANISATION

New Delhi-110001, dated 22-9-2004

No. M-13011/2/2001-PCL The Government of India hereby reconstitutes the Technical Advisory Committee on Statistics of Prices and Cost of Living with effect from 22nd September, 2004 with the following membership :

Chairman

1. Director General  
Central Statistical Organisation  
Ministry of Statistics & Programme Imple-  
mentation  
Sardar Patel Bhawan, Sansad Marg  
New Delhi-110001.

Member

2. Adviser  
Labour, Employment & Manpower  
Planning Commission, Yojana Bhawan  
New Delhi-110001.
3. Economic & Statistical Adviser  
Ministry of Agriculture, Krishi Bhawan  
New Delhi-110001.
4. Economic Adviser  
Ministry of Finance  
Department of Economic Affairs  
North Block, New Delhi-110001.

5. Economic Adviser  
Ministry of Commerce and Industry  
Udyog Bhawan, New Delhi-110001.
6. Economic Adviser  
Department of Consumer Affairs  
Ministry of Food, Consumer Affairs & Public  
Distribution  
Shastri Bhawan, New Delhi-110001.
7. Director General & Chief Executive Officer  
National Sample Survey Organisation  
Ministry of Statistics & Programme  
implementation  
Sardar Patel Bhawan, Sansad Marg  
New Delhi-110001.
8. Additional Director General  
Field Operations Division  
National Sample Survey Organisation  
East Block, No. 6 R. K. Puram  
New Delhi-110066.
9. Director General  
Labour Bureau  
Ministry of Labour  
Cleremont Building  
Shimla-171004.
10. Deputy Director General  
In-charge of PCL Unit  
Central Statistical Organisation  
East Block-10, R. K. Puram  
New Delhi-110066.

11. Chairman  
Commission for Agricultural & Cost Prices  
Department of Agriculture & Co-operation  
Ministry of Agriculture, Krishi Bhawan  
New Delhi-110001.
  12. Executive Director  
Reserve Bank of India, Central Office  
Central Office Building  
Shahid Bhagat Singh Road  
Mumbai-400001.
  13. Economic & Statistical Adviser  
Economic & Statistical Organisation  
Government of Haryana, 30 Bays Building  
Sector-17, Chandigarh-160017.
  14. Director  
Directorate of Economics & Statistics  
Government of Kerala  
Vikas Bhavan  
Thiruvananthapuram-695033.
  15. Director  
Directorate of Economics & Statistics  
Government of Tripura  
Shankar Chumuhani  
Agartala-799001.
  16. Prof. C. P. Chandrasekhar  
Jawaharlal Nehru University  
New Delhi-110067.
  17. Prof. K. Sundram  
Delhi School of Economics  
Delhi-110017.
- Member-Secretary
18. Joint Director  
PCL Unit, Central Statistical Organisation  
West Block-8, Wing-6  
R. K. Puram, New Delhi-110066.

2. The representatives of the State Governments and the academic field will serve on the Committee for a period of two years with effect from 22nd September, 2004.

3. The terms of reference of the reconstituted Committee are as under :—

- (i) Examination of proposals for the conduct of Family Budget Enquires by Central Government, State Governments and Union Territory Administrations;
- (ii) Examination of schemes prepared by the Central Government, State Governments and Union Territory Administrations for

the construction of Consumer Price and Comparative Costliness Indices and special problems connected therewith, including problems concerning all India and State Level indices;

- (iii) Improvement and standardization of the concepts, definitions, methods of price collection and compilation of Consumer Price and Comparative Costliness Indices;
- (iv) Examination of schemes prepared by the Central Government, State Governments and Union Territory Administrations, for the construction of wholesale, retail, producers' and other price indices and special problems connected therewith, including problems concerning all India and State level indices;
- (v) Improvement and standardization of the concepts, definitions, methods of price collection and compilation of wholesale, retail, producers' and other price indices, including methods of weighting appropriate for each type of indices;
- (vi) Review of organizational arrangements and the machinery for price collection with a view to rationalizing and developing an integrated system of collection/compilation and dissemination of price statistics.

4. Secretarial assistance to the Committee will be provided by the Central Statistical Organisation, Ministry of Statistics and Programme Implementation.

5. The expenditure of the official members on TA/DA for attending the meetings of the Committee will be borne by the parent Ministries/Departments/Organizations to which they belong.

6. Non-Official members mentioned at Sl. No. 16 and 17 will be paid TA/DA/Conveyance allowance as admissible to the non-official members for attending meetings as per Instructions contained in para 1(ii) of Office Memorandum No. 19020/1/84-E.IV dated 23rd June 1986 of the Department of Expenditure, Ministry of Finance as amended and clarified from time to time.

7. The expenditure on account of payment of TA/DA to the non-officials at Sl. No. 16 and 17 of para 1 above, will be met out of the budget provision under the Plan Scheme Development of CPI

series, separately for urban and rural population at national level."

8. This issues with the concurrence of Financial Adviser (Statistics) vide Budget & Finance Section Dy. No. 501 dated 14-9-2004.

S. C. DAS  
Senior Analyst

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 18th October 2004

No. U-13019/2/2004-ANL—The President is pleased to appoint the following persons as Members of the Home Minister's Advisory Committee for the Union Territory of Lakshadweep in terms of Para 2 (c) of this Ministry's notification No. U-13019/1/96-ANL dated 21-11-96 :—

- (i) Shri Hajahussain, Chamayam.
- (ii) Miss Muthubi, Pathimachetta.
- (iii) Smt. Shahida Beegum, Odipurachetta.
- (iv) Shri Kunhikoya, Pallipura.
- (v) Shri Sayed Abdullakoya.

Dr. K. S. SUGATHAN  
Jt. Secy.

## MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

### (DEPARTMENT OF SECONDARY & HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 30th September 2004

No. F. 9-27/2004-U. 3—In continuation of notification No. F. 9-9/98-U. 3 dated 2-8-2002 and 13-3-2003 and in exercise of the powers conferred by Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956, the Central Government, on the advice of the University Grants Commission hereby declare that the SRM Medical College Hospital and Research Centre, Kattankulathur, Kanchipuram is included under the ambit of SRM Institute of Science and Technology, Chennai, a Deemed to be University for the purpose of the aforesaid Act with immediate effect subject to the following conditions :—

- (a) The SRM Medical College Hospital and Research Centre shall not admit any student without obtaining prior approval from the Medical Council of India;
- (b) Any advertisement/public notice issued by SRM Institute of Science and Technology in the interim period will specifically state that the inclusion of Medical College in the ambit of SRM Institute of Science and Technology, (Deemed University) by UGC is provisional and subject to the approval of Medical Council of India.

SUNIL KUMAR, Jt. Secy.